



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

27 अप्रैल 2007



खंड 22

संख्या 17

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2006	2007		घट-बढ़	
	21 अप्रैल	13 अप्रैल	20 अप्रैल #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	4,38,005	5,10,336	5,13,292	2,956	75,287
संचलन में नोट	4,37,987	5,10,315	5,13,276	2,961	75,288
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	17	21	16	-5	-1
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	100	12,023	565	-11,458	464
बाजार स्थिरीकरण योजना	25,223	69,894	73,523	3,629	48,299
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,19,954	1,54,953	1,82,725	27,772	62,771
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,945	2,051	2,513	462	568
अन्य बैंक	6,163	8,493	8,783	290	2,620
अन्य	12,213	13,530	13,198	-332	985
अन्य देयताएं	1,49,421	1,69,463	1,59,215	-10,249	9,794
कुल देयताएं / आस्तियां	7,53,065	9,40,784	9,53,854	13,070	2,00,789
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	6,79,675	8,37,037	8,25,657	-11,380	1,45,982
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	25,674	29,573	29,573	—	3,899
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	29,324	63,342	83,152	19,810	53,828
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	1,463	220	492	272	-971
नाबार्ड	1,629	—	—	—	-1,629
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	410	158	5,206	5,048	4,796
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15	—	21	21	6
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	157	84	201	117	44
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	3,973	3,973	—	—
अन्य आस्तियां	10,746	6,396	5,579	-818	-5,167

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	20 अप्रैल 2007 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2007 की समाप्ति पर		दिसंबर 2006 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	8,57,183	2,03,881	-11,410	789	-11,039	4,702	73,201	26,630	1,48,366	46,619
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,25,657	1,96,632	-11,380	788 *	-10,940	4,708	72,919	26,445	1,45,982	45,895
(ख) स्वर्ण	29,573	6,784	—	—	—	—	749	267	3,899	1,029
(ग) विशेष आहरण अधिकार	8	2	—	—	—	—	4	1	-17	-4
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	1,945	463	-30	1	-99	-6	-471	-83	-1,498	-301

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	13 अप्रैल, 2007 को बकाया #	परखाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2006-2007	2007-2008	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	39,367	-716	-940	-716	-1,999	3,229
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	37,768	2,637	-69	2,637	-2,606	8,640
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	12,744	2,666	-215	2,666	-2,845	4,069
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां @	26,01,666	7,407	-5,356	7,407	3,28,542	4,97,974
		(0.3)	(-0.3)	(0.3)	(18.5)	(23.7)
मांग	3,89,903	-33,223	-7,074	-33,223	92,303	32,337
मीयादी @	22,11,763	40,630	1,718	40,630	2,36,239	4,65,637
उधार ⁽³⁾	1,14,807	28,656	-1,576	28,656	8,923	33,240
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,41,472	-4,311	22,100	-4,311	43,208	30,592
रिजर्व बैंक से उधार	158	-6,087	-1,058	-6,087	385	-272
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,69,428	-26,145	-22,127	-26,145	5,428	51,449
पास में नकदी	14,475	-876	-1,885	-876	2,037	3,314
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,54,953	-25,269	-20,242	-25,269	3,391	48,135
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	26,253	-1,910	-896	-1,910	3,700	687
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	20,939	67	-2,732	67	-12,597	10,051
बैंकों को अग्रिम	5,656	-824	-490	-824	-4,948	1,955
अन्य आस्तियां	21,381	51	-1,544	51	5,414	12,804
निवेश⁽⁵⁾	8,13,857	21,697	40,309	21,697	21,372	56,093
		(2.7)	(5.6)	(2.7)	(2.9)	(7.4)
सरकारी प्रतिभूतियों में	7,92,841	21,781	40,373	21,781	24,557	51,726
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	21,016	-84	-64	-84	-3,185	4,367
बैंक ऋण	19,06,128	-17,064	-19,963	-17,064	3,59,340	4,19,014
		(0.9)	(-1.3)	(-0.9)	(31.9)	(28.2)
खाद्य ऋण	46,354	-166	-7,708	-166	-3,864	13,372
खाद्येतर ऋण	18,59,774	-16,898	-12,255	-16,898	3,63,204	4,05,642
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	18,22,901	-15,561	-18,489	-15,561	3,45,672	4,10,935
देशी बिल - खरीदे गए	14,184	640	-366	640	3,554	1,636
भुनाए गए ⁽⁶⁾	31,498	163	-757	163	5,173	1,439
विदेशी बिल - खरीदे गए	15,092	-685	-462	-685	1,311	2,480
भुनाए गए	22,454	-1,620	111	-1,620	3,630	2,525
नकद-जमा अनुपात	6.51					
निवेश-जमा अनुपात	31.28					
ऋण-जमा अनुपात	73.27					

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिज्म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2006	2007					
	14 अप्रैल	9 मार्च	16 मार्च	23 मार्च	30 मार्च	6 अप्रैल	13 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	10.25-10.75	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-13.25	12.50-13.25
जमा दर ⁽⁴⁾	6.00-7.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	4.00/5.90	2.50/6.50	3.30/11.00	5.00/75.00	6.00/80.00	5.25/16.00	1.50-7.50
- दिये गए उधार	4.00/5.90	2.50/6.50	3.30/11.00	5.00/75.00	6.00/80.00	5.25/16.00	1.50-7.50

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

मद	2007 - 2008			2006 - 2007		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2007			2006		
	30 मार्च	13 अप्रैल		31 मार्च	14 अप्रैल	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	19,23,192	19,06,128	-17,064 (-0.9)	15,07,077	14,87,114	-19,963 (-1.3)
क. खाद्य ऋण	46,521	46,354	-166	40,691	32,983	-7,708
ख. खाद्येतर ऋण	18,76,672	18,59,774	-16,898 (-0.9)	14,66,386	14,54,132	-12,255 (-0.8)
2. निवेश	83,466	81,071	-2,395	79,464	80,663	1,198
क. वाणिज्यिक पत्र	9,178	7,997	-1,181	4,821	4,691	-130
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	18,346	18,390	44	12,775	14,423	1,648
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,152	2,059	-94	2,274	1,999	-275
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	16,194	16,332	138	10,501	12,424	1,923
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	55,942	54,683	-1,259	61,868	61,549	-319
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	28,280	27,278	-1,002	32,345	32,705	360
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	27,663	27,405	-257	29,523	28,844	-679
3. कुल (1ख+2+3)	19,60,138	19,40,845	-19,293	15,45,851	15,34,794	-11,056

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलय के प्रभाव शामिल हैं।

4. आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुछ भिन्न हो सकता है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2007					वार्षिक वृद्धि (+) / हास (-) (प्रतिशत)				
	16 अप्रैल	17 अप्रैल	18 अप्रैल	19 अप्रैल	20 अप्रैल	16 अप्रैल	17 अप्रैल	18 अप्रैल	19 अप्रैल	20 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	42.3000	41.7300	41.8900	42.1500	41.9900	—	8.20	7.78	7.09	7.53
यूरो	57.3300	56.5000	56.9300	57.2200	57.2200	—	-2.69	-2.79	-2.52	-2.62
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	42.2950	41.7500	41.9000	42.1450	42.0000	—	8.13	7.73	7.09	7.48
डॉलर { बिक्री	42.3050	41.7600	41.9100	42.1550	42.0100	—	8.13	7.73	7.09	7.47
पौंड { खरीद	84.0875	83.1700	84.1850	84.3750	84.2525	—	-4.57	-5.05	-4.65	-4.19
स्टर्लिंग { बिक्री	84.1200	83.2025	84.2175	84.4150	84.2900	—	-4.56	-5.04	-4.67	-4.20
यूरो { खरीद	57.3175	56.5250	56.9425	57.2200	57.2450	—	-2.76	-2.84	-2.59	-2.67
{ बिक्री	57.3350	56.5550	56.9650	57.2475	57.2725	—	-2.75	-2.84	-2.59	-2.69
100 येन { खरीद	35.3900	34.9725	35.2525	35.7550	35.3825	—	9.14	8.74	7.81	8.39
{ बिक्री	35.4125	34.9875	35.2700	35.7800	35.4000	—	9.13	8.73	7.80	8.40
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	8.23	9.49	9.17	8.26	9.43					
3 - माह	7.09	7.38	7.45	6.98	7.72					
6 - माह	6.45	6.33	6.35	6.12	6.43					

— : पिछले वर्ष के तदनुसूची दिन बाजार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		परखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	13 अप्रैल #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	32,96,919	33,21,485	25,841	0.8	8,759	0.3	24,565	0.7	4,02,086	17.2	5,83,179	21.3
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4,84,171	4,99,457	14,450	3.0	14,066	3.4	15,286	3.2	57,531	15.6	72,272	16.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4,68,216	4,34,895	-33,321	-7.1	-7,026	-1.7	-33,321	-7.1	98,699	32.8	35,534	8.9
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	23,37,045	23,79,836	42,792	1.8	1,921	0.1	42,792	1.8	2,43,894	14.7	4,74,746	24.9
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	7,487	7,296	1,921	35.7	-202	-2.9	-192	-2.6	1,962	41.7	627	9.4
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	8,32,867	8,33,048	7,346	0.9	22,609	2.9	182	—	21,115	2.7	43,845	5.6
(क) रिजर्व बैंक	4,362	-18,307	-15,505	—	-17,890	—	-22,668	—	-5,212	—	-8,553	—
(ख) अन्य बैंक	8,28,505	8,51,355	22,850	2.8	40,498	5.3	22,850	2.8	26,327	3.4	52,398	6.6
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	21,23,290	21,07,406	-15,884	-0.7	-19,620	-1.2	-15,884	-0.7	3,66,454	28.0	4,34,023	25.9
(क) रिजर्व बैंक	1,537	1,384	-153	-10.0	—	—	-153	-10.0	-3	-0.2	-3	-0.2
(ख) अन्य बैंक	21,21,753	21,06,022	-15,731	-0.7	-19,620	-1.2	-15,731	-0.7	3,66,456	28.1	4,34,025	26.0
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	9,30,319	9,30,760	440	—	26,198	3.6	440	—	1,01,881	15.7	1,78,367	23.7
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8,229	8,229	—	—	—	—	—	—	1,306	17.5	-525	-6.0
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	5,97,786	5,57,959	-33,939	-5.7	20,428	4.4	-39,827	-6.7	88,670	22.3	72,532	14.9
	1,78,967	1,67,944	-11,035	-6.2	15,193	12.3	-11,023	-6.2	13,007	10.3	28,753	20.7

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसम्बर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

टिपणी : 31 मार्च 2007 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	20 अप्रैल #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	7,08,950	7,22,489	31,152	4.5	8,438	1.5	13,539	1.9	88,655	18.0	1,40,994	24.2
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,04,167	5,21,505	2,961	0.6	16,065	3.7	17,337	3.4	63,261	16.5	74,764	16.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,97,295	1,94,021	28,523	17.2	-7,449	-5.5	-3,275	-1.7	23,159	22.1	65,959	51.5
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	7,487	6,964	-332	-4.6	-179	-2.6	-524	-7.0	2,235	50.1	271	4.1
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	4,362	9,588	27,895	—	-2,578	—	5,226	—	14,818	—	4,029	—
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	4,118	9,137	27,623	—	-1,023	—	5,020	—	17,897	—	5,000	—
	9,173	7,951	5,186	187.6	-2,449	-34.1	-1,222	-13.3	-1,645	-25.8	3,218	68.0
	7,635	6,565	5,184	375.5	-2,449	-42.3	-1,071	-14.0	-1,642	-32.9	3,219	96.2
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	8,55,213	-11,380	-1.3	32,348	4.8	-10,940	-1.3	88,062	14.3	1,49,882	21.2
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,229	8,229	—	—	—	—	—	—	1,306	17.5	-525	-6.0
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	1,78,967	1,58,492	-9,452	-5.6	18,884	15.2	-20,474	-11.4	13,886	10.8	15,610	10.9

टिपणी : 31 मार्च 2007 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 अप्रैल 2007	1	1	400	1	400	7.75	2	210	2	210	6.00	190	-13.595
\$	1	34	13.415	34	13.415	7.75	1	10	1	10	6.00	13.405	
17 अप्रैल 2007	1	36	15.870	36	15.870	7.75	—	—	—	—	—	15.870	-20.220
\$	1	15	4.460	15	4.460	7.75	2	110	2	110	6.00	4.350	
18 अप्रैल 2007	1	22	9.085	22	9.085	7.75	1	10	1	10	6.00	9.075	-17.150
\$	1	26	8.075	26	8.075	7.75	—	—	—	—	—	8.075	
19 अप्रैल 2007	1	19	9.385	19	9.385	7.75	—	—	—	—	—	9.385	-15.590
\$	1	15	6.275	15	6.275	7.75	2	70	2	70	6.00	6.205	
20 अप्रैल 2007	3	20	10.010	20	10.010	7.75	—	—	—	—	—	10.010	-16.085
\$	3	17	6.190	17	6.190	7.75	2	115	2	115	6.00	6.075	

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

* — * : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

\$: 28 नवम्बर 2005 से शुरू हुई दूसरी एलएएफ नीलामी।

टिप्पणी : 5 मार्च 2007 से दैनिक रिवर्स रेपो अवशोषण अधिकतम 3,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन तक सीमित है जिसमें पहले एलएएफ के 2,000 करोड़ रुपये और दूसरे एलएएफ के 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2006-2007 4 अक्टू. 3 जन.	6 अक्टू. 5 जन.	2,000 2,000	44 52	2,886 2,972	2,100 —	26 36	2,000 2,000	2,100 —	— —	4,100 2,000	98.39 98.27	6.6048 7.1443	35,161 28,507
2007-2008 4 अप्रैल 18 अप्रैल	7 अप्रैल 20 अप्रैल	2,000 2,000	111 71	8,612 2,714	1,200 1,000	15 31	2,000 709	1,200 1000	— —	3,200 1,709	98.07 98.18	7.9353 7.4769	46,429 45,207
182-दिवसीय खजाना बिल													
2006-2007 4 अक्टू. 10 जन.	6 अक्टू. 12 जन.	1,500 1,500	33 51	2,447 3,408	— 400	18 17	1,500 1,500	— 400	— —	1,500 1,900	96.74 96.57	6.8011 7.1447	20,707 21,053
2007-2008 4 अप्रैल 18 अप्रैल	7 अप्रैल 20 अप्रैल	1,500 1,500	88 67	7,005 3,085	— 524	5 23	1,500 1,500	— 524	— —	1,500 2,024	96.18 96.32	7.9869 7.7487	17,206 18,110
364-दिवसीय खजाना बिल													
2006-2007 5 जुलाई 11 अक्टू. 3 जन.	7 जुलाई 13 अक्टू. 5 जन.	2,000 2,000 2,000	110 58 78	6,285 4,680 4,225	— 17 5	27 24 27	2,000 2,000 2,000	— 17 5	— — —	2,000 2,017 2,005	93.45 93.56 93.33	7.0513 6.9137 7.1893	43,269 43,983 48,349
2007-2008 11 अप्रैल	13 अप्रैल	2,000	112	8,010	130	10	2,000	130	—	2,130	92.90	7.6985	54,943

टिप्पणी : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 91 दिवसीय खजाना बिलों के लिए अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में बाजार स्थिरकरण योजना (एमएसएस) के तहत रु. 1,500 करोड़ की राशि शामिल है। 182 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 1,500 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है। 364 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है।

3. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।

4. कट-ऑफ क्रम पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13 अप्रैल 2007	31 मार्च	1 अप्रैल	2 अप्रैल	3 अप्रैल	4 अप्रैल	5 अप्रैल	6 अप्रैल	7 अप्रैल	8 अप्रैल	9 अप्रैल	10 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल	13 अप्रैल
	1,81,346	3,62,691	5,49,688	7,34,519	9,04,661	10,75,819	12,46,930	14,17,031	15,87,132	17,45,694	19,00,599	20,58,825	22,21,327	23,74,628
27 अप्रैल 2007	14 अप्रैल	15 अप्रैल	16 अप्रैल	17 अप्रैल	18 अप्रैल	19 अप्रैल	20 अप्रैल	21 अप्रैल	22 अप्रैल	23 अप्रैल	24 अप्रैल	25 अप्रैल	26 अप्रैल	27 अप्रैल
	1,53,301	3,06,601	4,80,627	6,65,900	8,48,906	10,32,965	12,14,064							

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
1	2		3		4	
14 अप्रैल 2006	38,568		2,005		6.00 — 8.90	
7 जुलाई 2006	57,256		4,647		6.00 — 8.70	
13 अक्टू. 2006	64,482		2,513		4.75 — 8.50	
5 जन. 2007	68,928		2,449		8.26 — 9.25	
2 मार्च 2007	77,971		7,547		9.90 — 11.30	
16 मार्च 2007	92,468		17,986		10.30 — 11.25	

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2006	12,968	1,423	6.77 — 8.95
15 जुलाई 2006	21,652	3,389	6.25 — 8.30
15 अक्तू. 2006	23,521	1,733	7.20 — 8.65
15 जन. 2007	23,748	1,255	8.30 — 9.58
28 फर. 2007	21,167	1,241	8.70 — 12.00
15 मार्च 2007	19,102	2,106	7.50 — 13.35

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बट्टा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2006	2007		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		8 अप्रैल	10 फर.*	7 अप्रैल#	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	198.7	209.0	210.8	0.4	0.7	0.4	6.1
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	195.2	215.1	218.9	1.4	2.1	1.4	12.1
(i) फल और सब्जियां	2.92	207.6	221.1	242.6	9.5	7.6	9.5	16.9
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	316.8	320.7	320.5	0.1	0.3	0.1	1.2
विनिर्मित उत्पाद	63.75	173.5	182.0	183.5	0.1	0.3	0.1	5.8
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	184.4	168.4	163.3	-0.4	-0.7	-0.4	-11.4
(ii) खाद्य तेल	2.76	143.2	165.3	164.2	-0.1	0.1	-0.1	14.7
(iii) सीमेंट	1.73	189.2	200.6	210.4	—	—	—	11.2
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	243.3	260.1	262.0	0.2	0.4	0.2	7.7

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2006	2007				
	20 अप्रैल	16 अप्रैल	17 अप्रैल	18 अप्रैल	19 अप्रैल	20 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	12039.55	13695.58	13607.04	13672.19	13619.70	13897.41
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	3573.50	4013.35	3984.95	4011.60	3997.65	4083.55

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	9 मार्च 2007	16 मार्च 2007	23 मार्च 2007	30 मार्च 2007	6 अप्रैल 2007	13 अप्रैल 2007	20 अप्रैल 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	9,812	9,767	8,773	11,878	16,938	11,800	16,834
ख) दिए गए ऋण	11,188	11,495	9,507	13,101	19,098	13,564	18,268
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,482	1,811	852	1,409	2,273	1,843	1,590
ख) दिए गए ऋण	106	84	118	186	114	79	156
3. कुल							
क) लिए गए उधार	11,295	11,578	9,625	13,287	19,212	13,643	18,424
ख) दिए गए ऋण	11,295	11,578	9,625	13,287	19,212	13,643	18,424

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)*

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	16 मार्च 2007	23 मार्च 2007	30 मार्च 2007	6 अप्रैल 2007	13 अप्रैल 2007	20 अप्रैल 2007
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	25,255	16,733	20,560	16,154	47,601	31,710
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	914	567	1,148	185	1,284	198
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	831	851	1,301	1,576	4,787	1,177
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	701	1,341	836	320	1,221	794
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,073	214	835	106	4,067	242
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	28	562	224	36	12	252

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्णावर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
2 अप्रैल 2007	100	34	54	35	342	141	70	365	386	665	295	73
3 अप्रैल 2007	2,586	1,074	536	865	790	938	3,983	8,356	175	5,696	1,776	278
4 अप्रैल 2007	1,642	987	236	974	1,005	1,368	4,090	7,081	508	3,278	1,234	350
5 अप्रैल 2007	954	542	205	275	726	595	3,074	3,723	432	2,894	735	280
6 अप्रैल 2007	5	—	1	—	—	—	9	15	—	—	—	—
बिक्री												
2 अप्रैल 2007	155	45	50	35	333	140	85	279	380	665	278	86
3 अप्रैल 2007	2,696	849	434	770	605	1,196	4,420	8,787	210	5,778	3,148	189
4 अप्रैल 2007	1,820	892	316	1,007	1,124	1,381	3,998	7,000	399	3,244	1,209	358
5 अप्रैल 2007	1,194	341	147	270	710	596	2,978	4,318	439	2,891	741	277
6 अप्रैल 2007	3	1	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	16 मार्च 2007	Mar. 23, 2007	30 मार्च 2007	5 अप्रैल 2007	13 अप्रैल 2007	20 अप्रैल 2007
1	2	3	4	5	6	7
राशि	97.31	273.18	191.94	—	355.99	74.88

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	20 अप्रैल 2007					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	14,814	10,534	32,696	58,044	1,692	5,922
राज्य सरकारें	28,682	23,950	2,780	7,310	62,722	-946	-10,681
अन्य	399	6,443	4,796	14,936	26,574	-1,033	-3,701

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिबाल्वमेंट)/ निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2007-2008 (20 अप्रैल 2007 तक)	2006-2007 (21 अप्रैल 2006 तक)	2006-2007	2007-2008 (20 अप्रैल 2007 तक)	2006-2007 (21 अप्रैल 2006 तक)	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	10,000	8,000	1,46,000	10,000	-8,500	1,06,921
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री	295	159	5,845	—	—	—
खरीद	5	260	720	—	—	—

* : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)®

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	13 अप्रैल 2007 को समाप्त सप्ताह			20 अप्रैल 2007 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2007-08	186	6.9474	7.7053	235	7.4101	7.6403
2008-09	1,252	7.8065	8.5341	1,590	7.8952	8.5400
2009-10	4,052	7.9530	8.5461	1,445	8.0012	8.1835
2010-11	2,700	7.9841	8.1667	1,135	8.0508	8.2248
2011-12	1,497	8.0471	8.2469	367	8.0243	8.2876
2012-13	61	8.0086	8.0462	366	8.0331	8.1453
2013-16	5,879	8.0069	8.6496	5,910	8.0708	8.2238
2016-17	6,397	8.0027	8.2192	2,471	8.0310	8.1242
2017 से आगे	1,778	8.1309	8.6011	2,336	8.1805	8.6499
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	642	7.5379	8.4003	99	8.1800	8.4000
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	461	4.6835	7.2700	—	—	—
ख) 15 - 91 दिन	2,806	6.2000	7.9298	588	6.7996	7.3937
ग) 92 - 182 दिन	905	7.2000	7.6999	473	7.2001	7.7487
घ) 183 - 364 दिन	865	7.3800	7.8999	45	7.6400	7.7499
II. भा.रि.बैं.* : विक्री	12			252		
: खरीद	—			—		
III. रेपो लेनदेन£ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (%वार्षिक) न्यूनतम	दरें (%वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (%वार्षिक) न्यूनतम	दरें (%वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	45,915	0.25 (1)	6.50 (7)	25,210	2.00 (1)	10.00 (6)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,472	0.25 (1)	6.10 (3)	347	5.00 (1)	8.75 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	982	2.75 (1)	6.30 (3)	40	7.95 (3)	7.95 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,110	2.00 (1)	6.20 (3)	—	—	—
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	8,142	1.00 (1)	6.60 (3)	1,120	3.70 (1)	7.85 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो£^	760	—	7.75	83,165	—	7.75
: रिवर्स रेपो !	14,999	—	6.00	525	—	6.00

® : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (%वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 450 रुपए और 1,250 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 30 अमरीकी डॉलर और 80 अमरीकी डॉलर हैं।

श्री. ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस लि., 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फैंक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।